FINANCIAL EXPRESS

ARA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED CIN: U55101DL2004PTC127156, T.: +91(0) 4351 3100, F.: +91(0) 4351 3200 Regd. Off.: Central Wing, Ground Floor, Thapar House, 124, Janpath New Delhi- 110 001 Email: secretarial@interglobe.com

[See Rule 315] Members' Voluntary Winding-up Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516 ARA Hospitality Private Limited Name of the Company Managing, operating hotels, restaurants, cafes, Nature of Business taverns, motels, guest house, dak bungalows, and Janpath, New Delhi - 110001

Form No. 151

Address of the Registered Office Central Wing, Ground Floor, Thapar House, 124, Name and address of Liquidator Mr. Shailendra Gupta - 5B. First Floor, Plot No. 853, Shalimar Garden. Extension 1, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005 Date of Appointment 04th October, 2019 By whom appointed Members/Contributories

> For ARA Hospitality Private Limited Shailendra Gupta Liquidator

<u>'IMPORTANT'</u> STEEL STRIPS Whilst care is taken prior to WHEELS LIMITED acceptance of advertising CIN: L27107PB1985PLC006159

copy, it is not possible to verify Regd Off: Village Somalheri / Lehli, P.O. its contents. The Indian Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.) Express (P) Limited cannot be Tel: +91-172-2793112. held responsible for such Fax: +91-172-2794834. contents, nor for any loss or Email: ssl ssg@glide.net.in. damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore

Web Site: www.sswlindia.com Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday the O8th day of November, 2019 at Chandigarh inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2019. For STEEL STRIPS WHEELS LIMITED Place: Chandigarh Date: 30.10.2019 (A. V. Unnikrishnan)

Dy. Managing Director

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India

I hereby accept the appointment as Liquidator

Place: Gurgaon

Date: 4th October, 2019

New Delhi Region P-9/90, Connaught Circus, New Delhi-110001

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

E-AUCTION SALE NOTICE

Public Notice for E-Auction Sale of immovable properties E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement

of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the United bank of India (Secured Creditor), the possession (Constructive SI.No. 4, 5, 6, 7) and Physical SI. No. 1, 2, 3 properties of which has been taken by the Authorised Officer of United Bank of India, will be sold on "As is where is", "As is what is", and 'Whatever there is" on below mentioned dates, for recovery of under mentioned dues & further interest, charges and costs etc due to United Bank of India from the borrowers and guarantors as detailed below. The reserve price and earnest money deposit(EMD) amount for each property has been

furnished below Date of E-Auction - For SI. No 1 to 5 - Date 16.11.2019 & SI. No. 6 & 7 Date 03-12-2019 Time of E auction-11.30 AM to 3.30 PM with unlimited extension of 5 minutes each.

Last date & time of submission of EMD and documents is: a) 15.11.2019 (up to 5.00 PM) for E-auction date-16-11-2019, b) 02.12.2019 (up to 5.00 PM) for E-auction date-03-12-2019

ails of encumbrances over the pro	perties as known to the Bank-NIL	5		10
Name of the Branch Name & Address of the Borrower / Guarantors	Location & details of the property	Outstanding dues as per 13(2) notice for which property is being sold	Reserved Price	EMD a/c detail
			EMD Rs.	
			BID Increment	Contact detail
SAMB Delhi Branch	Equitable Mortgaged of immovable property Flat No. F-2 Plot No. C-29 DLF Dilshad Extn.II, Bhopura Ghaziabad, U.P. 201005.	Rs. 20,68,584.00 and interest and other charges w.e.f 10.09.2017	₹ 17.98 Lakh	
			₹ 1.80 Lakh	IFSC- UTBI0ARD778,. Name of account –
J-118/5 2nd floor Saurav Vihar Jaitpur Badarpur New Delhi-110044 Add 2 : Flat No. F-02, Plot No. C-29 DLF Dilshad Extn.II, Bhopura Ghazibad U.P-201005			₹ 0.25 Lac	United Bank of India SAMB Delhi (Inter Branch Credit Account) Mr. Prabhat Kumar Satpathy 9354483568 (M & Mr. S. Swaminathan 7738228579(M) Email- bmard@unitedbank.co.in
SAMB Delhi Branch M/s Kalpavriksh Electronics NJ-229 Sector-03, Bawana Delhi-110038 Partners 01) Navendu Babbar 02) Kashmiri Lal Babbar	Residential Property plot no.167 first floor situated at Block,-A Jhilmil, Tahirpur, Residential Scheme colony Phase-1, Vivek Vihar Delhi-110095 standing in the name of Sh. Navendu Babbar and Kashmiri Lal Babbar		₹ 72.90 Lakh	A/C 15100125001100, IFSC- UTBI0ARD778,.
			₹ 7.30 Lakh	Name of account – United Bank Of India SAMB Delhi (Inter Branch Credit Account)
			₹ 0.50 Lac	Mr. Prabhat Kumar Satpathy 9354483568 & Mr. S. Swaminathan) 7738228579 (M) Email- bmard@unitedbank.co.in
M/s. Muskan International	Equitable of Residential Property at	Rs. 77,70,769/- along with interest from 30.11.2016 cost and expenses	₹ 30.00 Lakh	A/C 15100125001100,
Davinder Singh Sodhi (Proprietor) A-2/4 Phase-I Mayapuri Industrial Area Delhi-110064	flat No.15 3rd Floor Kings Apartment Panchawati Complex situated at Mouza- Mondalganti R.S Dag No.132 J.L no.06 VIP Road Teghariya under the Jurisdiction of Arjanpur- Gopalpur No. II Gram Panchyat ADSRO Bidhan Nagar (Salt Lake City) P.S Baguiti Kolkata-70052		Commence of the Commence of th	IFSC- UTBI0ARD778, Name of account – United Bank of
				India, SAMB Delhi
				(Inter Branch Credit Account) Mr. Prabhat Kumar Satpathy 9354483568 (M) & Mr. S.Swaminathan) 7738228579 (M) Email- bmard@unitedbank.co.in
	Name of the Branch Name & Address of the Borrower / Guarantors SAMB Delhi Branch a) Mrs. Rekha Rai W/o Manoj Kumar Thakur b) Mr. Manoj Kumar Thakur J-118/5 2nd floor Saurav Vihar Jaitpur Badarpur New Delhi-110044 Add 2: Flat No. F-02, Plot No. C-29 DLF Dilshad Extn.II, Bhopura Ghazibad U.P-201005 SAMB Delhi Branch M/s Kalpavriksh Electronics NJ-229 Sector-03, Bawana Delhi-110038 Partners 01) Navendu Babbar 02) Kashmiri Lal Babbar M/s. Muskan International Davinder Singh Sodhi (Proprietor) A-2/4 Phase-I Mayapuri Industrial Area	Name of the Branch Name & Address of the Borrower / Guarantors SAMB Delhi Branch a) Mrs. Rekha Rai W/o Manoj Kumar Thakur b) Mr. Manoj Kumar Thakur J-118/5 2nd floor Saurav Vihar Jaitpur Badarpur New Delhi-110044 Add 2: Flat No. F-02, Plot No. C-29 DLF Dilshad Extn.II, Bhopura Ghazibad U.P-201005 SAMB Delhi Branch M/s Kalpavriksh Electronics NJ-229 Sector-03, Bawana Delhi-110038 Partners 01) Navendu Babbar 02) Kashmiri Lal Babbar M/s. Muskan International Davinder Singh Sodhi (Proprietor) A-2/4 Phase-I Mayapuri Industrial Area Delhi-110064 M/s. Muskan International Davinder Singh Sodhi (Proprietor) A-2/4 Phase-I Mayapuri Industrial Area Delhi-110064 Equitable Mortgaged of immovable property Flat No. F-2 Plot No. C-29 DLF Dilshad Extn.II, Bhopura Ghaziabad, U.P. 201005. Residential Property plot no.167 first floor situated at Block,-A Jhilmil, Tahirpur, Residential Scheme colony Phase-1, Vivek Vihar Delhi-110095 standing in the name of Sh. Navendu Babbar and Kashmiri Lal Babbar Equitable of Residential Property at flat No.15 3rd Floor Kings Apartment Panchawati Complex situated at Mouza-Mondalganti R.S Dag No.132 J.L no.06 VIP Road Teghariya under the Jurisdiction of Arjanpur-Gopalpur No. II Gram Panchyat ADSRO Bidhan Nagar (Salt Lake	Name & Address of the Borrower / Guarantors Location & details of the property Equitable Mortgaged of immovable property Is being sold SAMB Delhi Branch a) Mrs. Rekha Rai W/o Manoj Kumar Thakur J-118/5 2nd floor Saurav Vihar Jaitpur Badarpur New Delhi-110044 Add 2: Flat No. F-02, Plot No. C-29 DLF Dilshad Extn. II, Bhopura Ghazibad U.P-201005 SAMB Delhi Branch M/s Kalpavriksh Electronics NJ-229 Sector-03, Bawana Delhi-110038 Partners 01) Navendu Babbar 02) Kashmiri Lal Babbar M/s. Muskan International Davinder Singh Sodhi (Proprietor) A-2/4 Phase-I Mayapuri Industrial Area Delhi-110064 Reguitable Mortgaged of immovable property is being sold Rs. 20,68,584.00 and interest and other charges w.e.f 10.09.2017 Rs. 99,71,589.00 with further interest w.e.f 01.07.2017 and expenses & other charges other charges Well Industrial Area Delhi-110064 Equitable of Residential Property at flat No.15 3rd Floor Kings Apartment Panchawati Complex situated at Mouza-Mondalganti R.S Dag No.132 J.L no.06 VIP Road Teghariya under the Jurisdiction of Arjanpur-Gopalpur No. II Gram Panchyat ADSRO Bidhan Nagar (Salt Lake)	Name of the Branch Name & Address of the Borrower / Guarantors SAMB Delhi Branch a) Mrs. Rekha Rai W/o Manoj Kumar Thakur b) Mr. Manoj Kumar Thaku

United Bank Of India ranch Credit Account) atpathy 9354483568(M) nan) 7738228579 (M) unitedbank.co.in 125001100. 310ARD778. t - United Bank of AMB Delhi Credit Account) Cumar Satpathy 568 (M) & an) 7738228579 (M) unitedbank.co.in SAMB Delhi Branch Equitable Mortgage of Land & Hotel ₹ 15.89 Crore Rs. 7,75,54,120.50 A/C No-15100125001100. building at khata No. 136 and Khet M/s. Yuvraj Eco Tourism Pvt.Ltd. IFSC- UTBIOARD778 with further ₹ 1.60 Crore No. 41/1,43 at village-Manpur Name of account - United Bank of India Add: Manpur (West) Rampur Road interest and Paschim, Pargana Bhawar, Rampur SAMB Delhi (Inter Branch Credit Account) Haldwani-263153 Distt:Nanital Uttarakhar ₹ 1.00 Lac expenses & other Road Near Transport Nagar, Dewal Mr. Prabhat Kumar Satpathy Directors: (01) Mr.Mohit Singh Negi charges Chawk, Haldawani measuring 0.57 9354483568 (M) (02) Mrs.Madhuri Negi Hectares (Approx 5692 sq. mtrs.) & Mr. S. Swaminathan Jointly owned by Mr. Laxman Singh 7738228579(M) Negi Ms. Madhuri Negi and Master Email- bmard@unitedbank.co.in Rohan & Master Yuvraj both S/o. Mr. Mohit Singh Negi situated at village Manpur west Tehsil Haldwani District Nainital Equitable Mortgage of Property Flat Bablu Kumar Pandey & Rs. 20,07,932.00 ₹ 22.61 Lakh A/C 15100125001100, No. FF-03, 1st Floor (Rear Road) Plot Ranju Pandey (Borrower) IFSC- UTBIOARD778, with further interest ₹ 2.26 Lakh No. M-120 Sector-12, Pratap Vihar Add: MIG Flat No. FF-03 1st Floor Name of account - United Bank of from 01.08.2018 and Ghaziabad U.P-201010. ₹ 0.25 Lac (Rear Road) Plot No. M-120 Sector-12 India, SAMB Delhi others charges and Pratap Vihar, Ghaziabad, U.P-201010 (Inter Branch Credit Account) expenses Mr. Prabhat Kumar Satpathy 9354483568 (M) & Mr. S.Swaminathan) 7738228579 (M) Email- bmard@unitedbank.co.in M/s. Mahadev Stationers & Traders | Equitable Mortgage of Ground Floor A/C No-15100125001100. Rs. 26,05,604.24 ₹ 20.30 Lakh RZ-221/213 (Old No.121), Out of IFSC- UTBIOARD778.. Prop. Sri Ajay Sinha with further interest ₹ 2.03 Lakh Khasra No. 213 Village-Nasirpur now Name of account - United Bank of RZ-121/213 (OLD-121) Gali No.8, I Block, and expenses & West Sagarpur, Delhi-110046 know as West Sagarpur New Delhi-India SAMB Delhi ₹ 1.00 Lac others charges (Inter Branch Credit Account) 110046 Borrower: Sri. Ajay Sinha Mr. Prabhat Kumar Satpathy RZ-429/3 Street No.11 Kailash Puri extn. 9354483568 (M) & Palam, Delhi-110046 Mr. S. Swaminathan 7738228579(M) Guarantor: Email- bmard@unitedbank.co.in Mrs. Tanu sinha RZ-429/3, Street No. 11 Kailash Puri Ext. Palam, Delhi-110046 M/s H.S & Co A/C No. 15100125001100. Equitable Mortgage of Residentia Rs. 87,77,486.00 ₹ 135.00 Lakh

B-201, Okhla Industrial Area Phase-1 New Delhi-110022 Borrower: Sh. Harvir Singh S/o Late Badley Ram

B-201, Okhla Industrial Area

Phase-1 New Delhi-110020

Prop. Mr. Harvir Singh

Guarantor: Mrs. Suman W/o Mr. Harvir Singh, H.No. 1279 Sector-37, Faridabad-121003.

TERMS & CONDTIONS: GST applicable as per Govt rule

Online auction will start automatically on and at the time mentioned above.

2) The property will be sold by E-Auction through the Website: www.bankeauctionwizard.com of Bank's approved service provider M/s Antares Systems Limited. under the supervision of the Authorized Officer of the Bank.

with further interest

and expenses &

others charges

₹ 13.50 Lakh

₹1.00 Lac

House No.1279 Entire Ground and

First Floor Sector-37 Urban Estate

Faridabad Harvana-121003.

3) E-Auction Document containing Declaration, general terms and conditions of online auction sale are available on portal; www.bankeauctionwizard.com of M/s Antares Systems Limited. Intending participants may down load relevant documents or may get in touch with the Service Provider on Help line Mob-7503347659 (Land line No.080-40482000) - Helpline E-mail id: mail@antaressystems.com & pushpraj@antaressystems.com.

4) Intending bidders shall hold a valid E-Mail ID. The user Ids/Passwords and training will be provided by M/s Antares Systems Limited, only to those bidders who fulfill all terms and conditions and who have submitted the requisite EMD with the Bank. The user-ID ids/Passwords will be communicated to bidders through email.ID

Bid form along with proof of EMD deposit and KYC documents (copy of PAN CARD, proof of identification, i.e self attested copy of voter-I-card,/driving license/passport etc) and copy of proof of address, may be submitted to the Authorized Officer, United Bank of India through E-mail mentioned against each property on or before the last date mentioned above. The Bid Form and EMD received late for any reason whatsoever will not be entertained. Bank reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. Bid Form, Terms and Condition of Sale are also available in the Bank's portal (www.unitedbankofindia.com). The bidders other than individuals shall also

upload proper mandate for e-bidding. Bid form without EMD shall be rejected summarily.

epaper.financialepress.com

The intending bidders who have deposited EMD to participate in the auction process but failed to participate on the date of Auction for whatsoever reason, the EMD so deposited will be forfeited automatically

In the event of cancellation of sale before or after the sale is conducted for any reason or by order of court the bidder shall not have any claim of whatsoever nature including interest against the bank. In the event of delay in confirmation of sale/issuing sale Certificate/handing over possession of the property on account of any reason or restraint orders of court the bidder shall not have any claim of whatsoever nature including interest against the bank. It is reiterated and clarified that the amount paid by the successful bidder shall not bear any interest and thereby no such claim for payment of interest can be made by the bidders under any circumstances.

The property will not be sold below or for the reserve price. The intending bidders should quote the price above the reserve price. The property shall be sold to the highest bidder. The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (less EMD) immediately on the date of sale or not later than next working day as the case may be and the balance amount of sale price to be paid on or before 15 days from the date of auction without giving any notice or such extended period as may be allowed and communicated in writing by authorized officer.

The successful bidder shall have to deposit balance of the bid amount through EFT/NEFT/RTGS/DD/PO to the above account.

11) In case of default in payment of sale price or any part thereof within the period(s) mentioned hereinabove, the EMD and/or initial deposit(s) as the case may be, shall be forfeited and the property shall be sold again through auction. The highest bidder / successful purchaser will have no right on the said property.

12) The EMD of unsuccessful bidders will be returned on the same day, ie after conclusion of sale subject to a maximum of seven days. The EMD will not carry any interest. The sale certificate will be issued in favour of the purchaser (as per Bid form) only, after payment of entire sale price amount.

14) The property will be sold in "AS IS WHERE IS AND AS IS WHAT IS CONDITION" and the intending bidders should make discreet enquiries as regards any claim/court case/ litigation, charges on the property of any authority besides the Bank's charges and should satisfy themselves about the title, extent, quality and quantity of the property before submitting the bids. No claims of whatsoever nature regarding the property put for sale, charges/ encumbrances over the property or on any other matter etc., will be entertained after submission of bid. Prospective bidders are advised to peruse and verify the latest Encumbrance certificate and other revenue / municipal records to exercise diligence and satisfy themselves on title and encumbrances if any over the property. Encumbrances not known to the Creditor / Bank such as tax dues, property tax dues or other statutory dues if any, shall be enquired by the interested bidders from concerned departments, before bidding.

The Authorized Officer is not bound to accept the highest bid or any or all bids and reserves the right to accept or reject any or all the bids or cancel, postpone the e-auction without

16) The purchaser shall bear the stamp duty, charges including those sale certificate/s, registration charges, all statutory dues payable to government, taxes and rates and outgoings. both existing and future and income tax at source if any at the time of issuance of sale Certificate or later relating to the properties. All statutory/non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to anybody will be the responsibility of the buyer.

This publication is also 15/30 days' notice required under Rule 8(6) & 6(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the above borrower / guarantors.

19) Neither UBI nor Service provider will be responsible for any lapses / failure on the part of the bidder. In such cases, to ward off such contingent situations, bidders are requested to make all necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply whatever required.

 All bids made by from the user ID given to the bidders will be deemed to be have been made by him/her only Bidder shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of sale and be bound by them.

23) The sale is subject to the conditions prescribed in the SARFAESI Act, Rules 2002 amended from time to time and the conditions mentioned above and also subject to pendency of cases/litigation if any pending before any court/ tribunal.

Date: 31.10.2019, Place: New Delhi Authorised officer, United Bank of India

IFSC- UTBIOARD778.. Name of

account - United Bank of India

SAMB Delhi (Inter Branch

Credit Account)

Mr. Prabhat Kumar Satpathy

9354483568(M) &

Mr. S. Swaminathan,

7738228579 (M)

Email- bmard@unitedbank.co.in

Form No.:5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT LUCKNOW

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007. (Area of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh)

Summons for filling Reply & Appearance by Publication O.A. No. 551 OF 2019 Date: 22.10.2019

Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to the Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules, 1993)

Syndicate Bank, ...Applicant. Versus

Satyanarayan Rao Jayanti & Another. .Defendants

1- Sri Satyanarayan Rao Jayanti S/o Sri Prasad Rao Jayanti, R/o House No. C-1014 Sector-49, Sainik Colony, Faridabad, Haryana - 121001.

M/s La Residentia Developers Private Limited, Registered Office At 220, 2nd Floor. Vardhman Sunrise Plaza, Plot no. 1, L.S.C. Vasundhara Enclave, Delhi - 110096. ALSO AT: Amrapali Corporate Tower, C-56/40, Sector - 62, Noida, District - Gautam Buddh Nagar.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits, (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorized agent after publication of the Summons. and thereafter to appear before the Tribunal on 24/01/2020 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar: Debts Recovery Tribunal, Lucknow.

HDFC BANK

Department for Special Operations 5th Floor, Ansal Clasique Tower Plot No- 1, J Block, Community We understand your world Center Opp Surya Continental Rajouri Garden New Delhi 110027 **DEMAND NOTICE**

DEMAND NOTICE UNDER Sec 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

he following borrower and the Guarantors and Mortgagor availed the below mentioned secured oans from HDFC Bank Ltd. the loans of below mentioned borrowers and the Guarantors and Mortgagor have been secured by the mortgage of their respective property. As they have failed to adhere to the terms & conditions of the respective loan agreements and had become irregular, the loan account was classified as NPA's as per the Reserve Bank of India guidelines. Amounts due by them to HDFC Bank Ltd are mentioned in the following table and further interest on the said amounts shall also be payable as applicable and the same will be charged with effect from their espective dates Name of Borrowers & Outstanding Details of Date

availed/	Co-borrowers/	as per 13(2)	Secured as	of	
Product	Mortgagor		Assets	NPA	
Inventory Funding of Rs. 500.00 Lakhs Inventory Funding (Adhoc) of Rs. 200.00 Lakhs Cash Credit of Rs. 100.00 Lakhs	Plaza Pvt. Limited (Borrower/Hypothe	6,76,98,215.87/-	i m m o v a b l e property bearing r e s i d e n t i a l property being Flat No. A-878, 1st Floor, New Friends Colony, New Delhi-	14.04.19	

personally works for gain has not returned to us, we are constrained to cause this notice published. You are hereby called upon u/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days of this notice failing which the Bank will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured Date: 17.05.2019, Place: New Delhi For HDFC Bank Ltd., Authorised Officer

बेंक ऑफ़ इंडिया Branch: **Bank of India** Shaheed Nagar, Agra

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF THE FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT. 2002 (SARFAESI ACT) In exercise of the power conferred upon under section 13(2) for SARFAESI Act. 2002 being the authorized officer

of Bank of India issued Demand Notice to the following borrower/guarantors and the demand notices were sent through Regd. Post in the respective residential address. Again by virtue of this publication following borrower/ guarantors are informed to pay all their debts mentioned below within 60 days of this notice. Further the borrowers/ guarantors in particulars and public in general are cautioned not to deal with Sale-purchase of the following properties which are kept us as security.

Name & Add. of the Borrowers/Guarantors Amount O/S Description of the Property Date of demand Notice U/S 13(2) (Rs.) M/s. Shree Ganesh (a) Hypothecation of Cement, Concrete & Bricks Stock Rs. Construction (Prop. Rajesh lying at 36, MMIG, Nehru Enclave, Shamshabad Road 16,68,361/-Kumar Chauhan S/o Mr. Agra. Shyam Singh Chauhan) (b) EQM of Immovable Property Situated at Shop no. + interest

Agra.

Date of Demand Notice U/S 13(2)-04.09.2019

Add.: 36, MMIG, Nehru 6 (First Floor), Khasra no. 801, 821 to 825 & 830 Agra, Area-18.58 Sq. Mtr., In the name of Mr. Rajesh Kumar Chauhan S/o Mr. Shyam Singh Chauhan,

Enclave, Shamshabad Road, (Rajeev Complex) Gul Mohar Enclave Colony, Distt. Bounded as: East-Shop no.7, West-Shop no.5, North-9 Mtr. wide Road on Ground Floor, South-Others Property Further with reasons, we believe that you are avoiding the service of said Demand Notice issued under the Act, as

stated above hence, we are now constrained to make this publication of Demand Notice as required U/s 13(2) of Said Act and Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. You are hereby called upon to pay Bank of India, within a period of 60 days from the date of publication of this Demand Notice with the aforesaid amount alongwith further interest, cost, incidental expenses, charges etc. failing which, we Bank of India will take necessary action under the provisions of Sec. 13(4) of the said Act against all or any one or more of the secured assets including taking possession of this secured assets of the borrower and guarantors and sale thereof. Further, you are prohibited u/s 13(13) of the said Act from transferring either by way of sale/lease etc. and encumber in any other way, the aforesaid secured assets. Please note that no further demand notice will be issued Date 31-10-2019 Place : Agra

and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.

Authorised Officer, Bank of India

JAYPEE

JAYPEE INFRATECH LIMITED CIN: L45203UP2007PLC033119

Regd. Office: Sector -128, Noida-201304, U.P.

Tel.: +91(120) 4609000, **Fax:** +91(120)4963122

INFRATECH

Website: www.jaypeeinfratech.com, Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in NOTICE

In terms of Regulation 29 and 47 of Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2019 will be considered and disseminated on Friday, the 8th November, 2019.

Further details may be accessed on the Company's Website i.e. www.iavpeeinfratech.com and may also be accessed on the Stock Exchange's Websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com. For JAYPEE INFRATECH LIMITED

(Company under Corporate Insolvency Resolution Process) **Anuj Jain**

Interim Resolution Professional IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-Place : Noida Date: 30th October, 2019 P00142/2017-18/10306

Divisional Office, No.6, 3rd Floor, (KVB) Karur Vysya Bank Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road, Smart way to bank Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Ph: 011-28758374 /2875375/76/77 Email: Delhido@kvbmail.com bhaskaranps@kvbmail.com

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) R/W Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and

Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, The Karur Vysya Bank Ltd, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of The Karur Vysya Bank Ltd., Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 05.12.2019, for recovery of Rs.2,39,24,885.70 (Rupees Two Crores Thirty Nine Lakhs Twenty Four Thousands Eight Hundred Eighty Five and paisa Seventy Only) due to the Karur Vysya Bank Ltd, Secured Creditor as on 31.08.2019 from (a) M/s Vandana International, Per Prop: Sh. Vijay Manchanda at 2635, Shop No- 202, Ilnd Floor, Bank Street, Karol Bagh, Delhi-110 005 (b) Mrs Meenu Manchanda, W/o Sh. Vijay Manchanda R/o A-34, Block- A, Subhadra Colony, Delhi- 110 035 - (c) Mr. Jagan Nath Bagga, S/o Late Sh. Nand Lal R/o E-38, Sector-40, Noida. The reserve price will be Rs.71,00,000.00 (Rupees Seventy One Lacs only) and the earnest money deposit will be Rs. 7,10,000.00 (Rupees Seven

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of Commercial Shop bearing No- 202,203 and 204, Second Floor, MCD No- XVI/2613,2635 and 2636, Plot No- 10, Block-M, Street No- 4, Bank Street, Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 and bounded on North: Bank street South: Plot No-251/2, East: 251/2 and 252 West: Property No 250

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in our Bank's/

Secured Creditor's website i.e www.kvb.co.in/Property Under Auction also at the web portal https://eauctions.samil.in of the service provider, M/s Shriram Automall India Ltd Statutory 15 days' Notice under Rule 8(6) R/W Rule 9(1) of the SARFAESI Act, 2002 The borrower/s and guarantor/s are hereby notified to pay the dues as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, failing which the Schedule property will be auctioned/sold and balance dues, if

any, will be recovered with interest and cost. Place: Delhi Chief Manager & Authorized Officer

Date: 25.10.2019

THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

& Other

Charges

STEEL STRIPS WHEELS LIMITED CIN: L27107PB1985PLC006159 Regd Off: Village Somalheri / Lehli, P.O.

Dappar, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali (Pb.) Tel:+91-172-2793112. Fax: +91-172-2794834. Email: ssl ssg@glide.net.in. Web Site: www.sswlindia.com The Company has received requests for issuance of Duplicate Share Certificates for the loss/misplaced. In case no objection is received within 15 days, the company will

proceed further to issue of duplicate share

Detail for issuance of Duplicate Share Certificates: 1. Ambay Parshad Singhal/Shalini Singhal Folio No. 0041766 No. of Shares 100 Cert. No's 69382 and 78864 Distinctive No's 5809801 to 5809850 and 6283901 to

certificates in favour of Share holder(s).

6283950. 2. Jyotsna Subhash Bhanushali/Subhash S Bhanushali Folio No. 0031633 No. of Shares 100 Cert. No's 66112-13

Distinctive No's 5646301 to 5646400. For STEEL STRIPS WHEELS LIMITED Place: Chandigarh (Shaman Jindal) Date: 30.10.2019

CGM-Cum- Company Secretary

ARY GRANT BASAN COPTARY AVARA (भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इण्डिया का संयुक्त <u>उपकम)</u> (A Joint Undertaking of Govt. of India, U.P. Govt. & Bank of India) Branch: Ramghat Road, Aligarh-202001.

POSSESSION NOTICE {for immovable property under Rule 9(1)} The Authorized Officer of Aryavart Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security

Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/mortagagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule-8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Aryavart Bank for the amounts

name of the borrowers/								
	Guarantors							
Mr	Nifin	Rajani	S/n	Mr	Mukesh	Rajani	ጺ	ı

Name of the Darroward

Details of the Mortgaged Properties Equitable mortgage of plot property situated at a part of khasra no.

Amt. Due as per demand Notice Date Demand notice Date of possession

Rs.

+ intt &

other expenses

04.12.2018

Rs.

22,33,210.00

other expenses

04.12.2018

25.10.2019

Rs.

16,40,144.00

other expenses

04.12.2018

25.10.2019

Rs.

19.39.932.00

+ intt &

+ intt &

25.10.2019

Guarantors Mr. Mukesh Kumar Rajani S/o Mr. 372, Plot No. 7, 8, 9, and 10 Shyam Nagar, Tiger Lock Compound, Mr. Mukesh Rajani.

Rajani, 3. Mr. Ashish Rajani Both S/o Mr. 25 feet wide, North- Road 25 feet wide, South- Plot of Mr. Mukesh

Mukesh Rajani.

(Legal Heirs of Mrs. Bhawna Rajani W/o Mr.) Mukesh Rajani 1. Mr. Mukesh Rajani S/o Mr. Parmanand Rajani, 2. Mr. Nitin Rajani, 3. Mr. Ashish Rajani Both S/o Mr. Mukesh Rajani & Guarantors Mr. Nitin Rajani S/o Mr. Mukesh Rajani & Mr. Mukesh Rajani S/o Mr. Parmanand Rajani

Rajani & Guarantors Mr. Nitin Rajani S/o Mr. Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani 1. Mr. Mr. Mukesh Rajani. M/S Arush International through proprietor Mr.

Nitin Rajani S/o Mr. Mukesh Kumar Rajani & Guarantors Mr. Mukesh Raiani S/o Mr. Parmanand Rajani and Legal Hiers of Mrs. Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani 1. Mr. Mukesh Rajani S/o Mr. Parmanand Rajani, 2. Mr. Nitin Rajani, 3. Mr. Ashish Rajani Both S/o Mr. Mukesh Rajani. Date: 31.10.2019 Place-Aligarh

15,48,989.00 Parmanand Rajani and Legal Hiers of Mrs. Aligarh having area 278.66 Sq. Mtr. Belonging to Mr. Nitin Rajani S/o Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani 1. Mr. Mukesh Rajani and Mrs. Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani Mukesh Rajani S/o Mr. Parmanand Rajani, 2. and Bounded as: East- Plot of Mrs. Namrata Agrawal, West- Road Mr. Nitin Rajani, 3. Mr. Ashish Rajani Both S/o 25 feet wide, North- Road 25 feet wide, South- Plot of Mr. Mukesh Mrs. Sonam Rajani W/o Mr. Nitin Rajani & Equitable mortgage of plot property situated at a part of khasra no. Guarantors Mr. Nitin Rajani S/o Mr. Mukesh 372, Plot No. 7, 8, 9, and 10 Shyam Nagar, Tiger Lock Compound, Kumar Rajani and Legal Hiers of Mrs. Bhawna Aligarh having area 278.66 Sq. Mtr. Belonging to Mr. Nitin Rajani S/o Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani 1. Mr. Mukesh Mr. Mukesh Rajani and Mrs. Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani Rajani S/o Mr. Parmanand Rajani, 2. Mr. Nitin and **Bounded as:** East- Plot of Mrs. Namrata Agrawal, West- Road

Rajani. Mrs. Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani Equitable mortgage of plot property situated at a part of khasra no. 372, Plot No. 7, 8, 9, and 10 Shyam Nagar, Tiger Lock Compound. Aligarh having area 278.66 Sq. Mtr. Belonging to Mr. Nitin Rajani S/d Mr. Mukesh Rajani and Mrs. Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani and Bounded as: East- Plot of Mrs. Namrata Agrawal, West-Road 25 feet wide. North- Road 25 feet wide. South- Plot of Mr. Mukesh

Mr. Mukesh Kumar Rajani S/o Mr. Parmanand Equitable mortgage of plot property situated at a part of khasra no. 372, Plot No. 7, 8, 9, and 10 Shyam Nagar, Tiger Lock Compound. Mukesh Kumar Rajani and Legal Hiers of Mrs. Aligarh having area 278.66 Sq. Mtr. Belonging to Mr. Nitin Rajani S/o Mr. Mukesh Rajani and Mrs. Bhawna Rajani W/o Mr. Mukesh Rajani Mukesh Rajani S/o Mr. Parmanand Rajani, 2. and Bounded as: East- Plot of Mrs. Namrata Agrawal, West- Road Mr. Nitin Rajani, 3. Mr. Ashish Rajani Both S/o 25 feet wide, North- Road 25 feet wide, South- Plot of Mr. Mukesh Rajani. Equitable mortgage of plot property situated at a part of khasra no. 372, Plot No. 7, 8, 9, and 10 Shyam Nagar, Tiger Lock Compound, 63,51,283.00 Aligarh having area 362.26 Sq. Mtr. Belonging to Mr. Mukesh Rajani

other expenses 04.12.2018 25.10.2019 Rs. + intt &

25.10.2019

New Delhi

S/o Mr. Parmanand Rajani and Bounded as: East- Plot of Others, other expenses West- Road 25 feet wide, North- Plot of Mrs. Bhavna Rajani and Mr. Nitin Rajani, South- Plot of Others.

04.12.2018 **Authorised Officer**

• HDFC BANK 5वीं मंजिल, अंसल क्लासिक टॉवर प्लॉट सं. 1, जे ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, सामने सूर्या कांटीनेंटल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत माँग सचना निम्नलिखित कर्जदार तथा जमानतियों एवं बंधककर्ताओं ने एचडीएफसी बैंक लि. से निम्नलिखित प्रतिभृत ऋण

लिये थे। निम्नलिखित कर्जदारों तथा जमानतियों एवं बंधककर्ताओं के ऋण उनकी सम्बद्ध सम्पत्ति के बंधकीकरण द्वारा प्रतिभूत हुए थे। चूँकि वे सम्बद्ध ऋण अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में असफल तथा अनियमित हो गये अतः ऋण खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। उनके द्वारा एचडीएफसी बैंक को देय बकाया निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है और पुनः कथित राशि पर यथाप्रयोज्य ब्याज भी देय है और इसे उनकी प्रभावी सम्बद्ध तिथियों से वसल किया जायेगा।

	कर्जदारों ⁄बंधककर्ताओं के नाम	13(2) के अनुसार बकाया	प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तिथि
का इन्वेंट्री वित्तपोषण 2. रु. 200.00 लाख का वित्तपोषण (एडहॉक) 3. रु. 100.00 लाख की नकदी साख		6,76,98,215.87/-	फ्लैट सं. ए-878, प्रथम तल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली	14.04.19
चौके आप लाभ के लि	ए जिस पते पर मल रूप से	निवास/त्यापार/त्यक्तिर	ात कार्य करते हैं उग ए	ार भेजी गयी सन्दर

वह हमारे पास वापस नहीं की गयी अतः हम इस प्रकाशन के लिए बाध्य हो गये हैं। एतद्वारा आपको उपर्यक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व को उनकी सम्बद्ध तिथियों से ब्याज की अनुबन्ध दर सिंहत अन्य लागतों. प्रभारों आदि को इस सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमे असफल रहने पर बैंक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अथवा किसी अधिकार का उपयोग करेगा। साथ ही आपको यह सुचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसा आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय, पट्टे या अन्य विधि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करेंगे।

कृते एचडीएफसी बैंक लि., अधिकृत प्राधिकार

AYPEE

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

CIN: L45203UP2007PLC033119 पंजीकृत कार्यालय: 128, नोएडा-201304, उ०प्र0 फोन: +91(120) 4609000, फैक्स: +91(120)4963122 वेबसाइट : www.jaypeeinfratech.com, ई-मेल: jpinfratech.investor@jalindia.co.in

स्चना

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियमों 29 एवं 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तिय परिणामों पर कम्पनी द्वारा शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2019 को विचार एवं अनुमोदन किया जायेगा।

अन्य जानकारी कम्पनी की वेबसाईट् www.jaypeeinfratech.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईटः www.nseindia.com व www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

> जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए (कॉर्पोरेट इन्साल्वेंसी रिजॉल्यशन प्रोसेस के अर्न्तगत कम्पनी)

अनुज जैन अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल आई.पी. पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-

स्थान : नोएडा तिथि : 30 अक्तूबर 2019 P00142/2017-18/10306

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund) Half-Yearly Unaudited Financial Results of the schemes of the Fund

NOTICE is hereby given that the Unaudited Financial Results (the Results) of the schemes of the Fund for the half-year ended September 30, 2019 have been hosted on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz. www.icicipruamc.com, in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

Investors may accordingly view/download the results from the website of the AMC. For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Date : October 31, 2019 No. 021/10/2019

Authorised Signatory

Sd/-

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



वसूली अधिकारी—। का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली—110001

आर.सी. सं. 663 / 2018 बिक्री उदघोषणा दिनांकः 14.10.2019 बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स वी. वी. ज्वैलर्स (पी) लिमिटेड व अन्य

सीडी नं.1. मैसर्स वी. वी. ज्वैलर्स (पी) लिमिटेड

इसके निर्देशकों के माध्यम से विशाल वैश्य, प्रिया वैश्य,

पंजीकृत कार्यालयः 3128, गली नं. 34, दूसरी मंजिल, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 इसके अलावाः 2578-79, दूसरी मंजिल, गली नं. 5, बीन्डन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 सीडी नं. 2. विशाल वैश्य, पुत्र गौरी शंकर,

(निर्देशक / गारंटर)

पता बी-5बी, अवंतिका एन्क्लेव, सेक्टर - 2, रोहिणी, दिल्ली 110085 इसके अलावाः ए-126, पॉकेट - 00, सेक्टर - 2, तीसरी मंजिल, रोहिणी, दिल्ली - 110085

सीडी नं. 3. प्रिया वैश्य, पत्नी विशाल वैश्य, (निर्देशक / गारंटर) पता बी-5 बी, अवंतिका एन्क्लेव, सेक्टर - 2, रोहिणी, दिल्ली - 110085

इसके अलावाः ए-126, पॉकेट - 00, सेक्टर - 2, तीसरी मंजिल, रोहिणी, दिल्ली - 110085 जैसा कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओए नं. 308/2016/डीआरटी-III

में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देंय रु. 1,17,66,927.98 / - (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख छियासठ हजार नौ सौ सत्ताईस और अठानवे पैसे मात्र) के साथ तिथि 29.03.2016 से अनुषांगिक खर्चे तथा उस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सम्पूर्ण वसूली भुगतान करने में विफल रहे हैं। तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पति की बिक्री का

आदेश दिया है। एततृद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 06.12.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे

के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई--नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली 'ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली' द्वारा सेवा प्रवक्ता मैसर्स सी —1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज 2, बिल्डिंग नंबर 301, गुड़गाँव, हरियाणा (भारत) फोनः +91 7291981124/25/26 संपर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान, मोबाइल नंबर 9813887931 ईमेलः support@bankeauctions.com, वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर संपर्क करें ।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: श्री नीरज रस्तोगी, सीएच बैंक के अधिकारी, मोबाइल नं 9871286176 यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपति की होगी तथा उक्त संपति से जुड़ी देयताएं एवं

दावें, जो अब तक सुनिश्चित है, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष

रूप से, वे बेची जा रही संपति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस

उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। 1. संपत्तियों का विवरण, आरक्षित मृत्य और ईएमडी निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	I
1.	वाणिज्यिक संपत्तियों दो दुकानें दर्ज पीवीटी नंबर 3 और 4 दक्षिणी ओर, सुपर एरिया मापदंड 106.7 वर्ग फुट प्रत्येक दुकान तीसरी मंजिल पर, बिना छत/छत के साथ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अधिकार नगर निगम नंबर 2519—20, गली नंबर 7, वार्ड नंबर XVI, खसरा नंबर 2121/297, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित (प्लॉट क्षेत्र मापदंड 83 स्क्वायर यार्ड)।	

आरक्षित मृल्य/ईएमडी ₹.16,00,000 /-(रूपये सोलह लाख मात्र) ईएमडी: 1,60,000/-(रूपये एक लाख साठ हजार मात्र)

संपत्ति को आरक्षित मृल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।

2 वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000 / - (रुपए पचास हजार मात्र) है।यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।

ं उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल उच्चतम बोलीदाता घोषित किया जाएगा।यदि प्रस्तावित मुल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता हैं

तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी खेच्छा से उच्चतम बोली को खीकार / अखीकार कर सकते हैं। ईएमडी का भुगतान 04.12.2019 तक रिकवरी अधिकारी—I, ऋण वसूली अधिकरण—III, दिल्ली के पक्ष में देय **डीडी / पे ऑर्डर द्वारा मृहरबंद लिफाफे में जमा किया जायेगा।** उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलागी में

भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल न, तथा यदि वे

अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उदघोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व / अटानी की पृष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुँच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी- ।, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी। सफल उच्चतम बोलीदाता को अगले कार्य दिवस के 3.00 बजे अप, तक ऊपर पैरा में वर्णित विवरणों के अनुसार

उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भूगतान करना होगा। सफल उच्चतम बोलीदाता को संपति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या

रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000 /- तक 2% की दर से तथा रु. 1000 / – की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-।, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भूगतान करना होगा।

संपत्ति दिनांक 29.11.2019 को पूर्वाह 11.00 बजे से अपराह 4.00 बजे तक इच्छक बोलीदाताओं के लिए निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नंई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चुक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्धोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

10. संपति की बिक्री **''जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर''** की जा रही हैं।

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के 11. अघोहस्ताब्वरी के पास अनुपयक्त पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार व अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलॉर्मी प्रांस्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है। के उद्देश्य से 1 नवम्बर, 2019 से स्टॉक एक्सचैंजों

12. इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में संपत्तियों के खिलाफ राजस्व / अतिक्रमण या दावे का कोई विवरण नहीं है हालांकि, भावी बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने से पहले, स्वेच्छिक से बिजली / पानी / हाउस टैक्स के बिलों या किसी अन्य नकदीकरण आदि की बकाया राशि की जानकारी करने की सलाह दी जाती है। 13 असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि

को अथवा उससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित / परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी। 14. सीएच बैंक को यहां ऊपर दिए विवरण की सत्यता की जांच तथा प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है 🏾

🕦 मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 14.10.2019 को जारी किया गया।

(अनिल कुमार यादव) रिकवरी अधिकारी— 1, डीआरटी-III, दिल्ली

एआरए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन : U55101DL2004PTC127156, टी : +91 (0) 4351 3100, एफ : +91 (0) 4351 3200 पंजी. कार्यालयः सेन्ट्रल विंग, ग्राउण्ड फ्लोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली- 110001 ई-मेल : secretarial@interglobe.com

प्रपन्न सं. 151

(नियम 315 देखें) सदस्यों का स्वैच्छिक समापन घारा 516 के अनुसरण में परिसमापक की नियुक्ति की सूचना एआरए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का नाम व्यवसाय का प्रकार होटल्स, रेस्टोरॅंटस, कैफेज, टेवर्न्स, मोटल्स, गेस्ट हाउस, डाक बंगलों तथा रिफ्रेशमेंट रूम्स का प्रबंधन, प्रचालन पंजीकत कार्यालय का पता सेन्ट्रल विंग, ग्राउण्ड फलोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली-110001 परिसमापक का नाम और पता श्री शैलेन्द्र गुप्ता एल-5बी, प्रथम फुलोर, प्लॉट नं. 853, शालीमार गार्डन, एक्सटेशन 1. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005

नियुक्ति की तिथि 04 अक्टूबर, 2019 किसके द्वारा नियक्त सदस्यगण / अंशदातागण मैं एतदद्वारा परिसमापक के रूप में नियक्ति रवीकार करता हूं। वास्ते एआरए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-स्थान : गुड़गांव शैलेन्द्र गुप्ता तिथि : ४ अवद्वर, 2019 परिसमापक

आईजीटी सॉल्यूशन्स इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन : U74140HR2010PTC043445, टी : +91 124 4352034, एफ : +91 124 2367564 ई-मेल : secretarial@interglobe.com पंजी. कार्यालय : ब्लॉक २वी, डीएलएफ कार्पोरेट पार्क, डीएलएफ सिटी फेज–।।।, गुडगांव– 122002 प्रपत्र सं. 151 (नियम 315 देखें) सदस्यों का स्वैच्छिक समापन धारा 516 के अनुसरण में परिसमापक की नियुक्ति की सूचना आईजीटी सॉल्यशन्स इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का नाम टीपीएफ विकास के क्षेत्रों में प्रोग्राम्स डिजाइन, विकास, क्रय व्यवसाय का प्रकार और विक्रय हेत् सॉफटवेयर कंसल्टैंट का व्यवसाय ब्लॉक 2बी, डीएलएफ कापॉरेट पार्क, डीएलएफ सिटी पंजीकत कार्यालय का पता फेज-।।। गुडगांव - 122002 परिसमापक का नाम और पता श्री शैलेन्द्र गुप्ता एल-5बी, प्रथम फलोर, प्लॉट नं 853, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन 1. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 नियुक्ति की तिथि 04 अक्टूबर, 2019 किसके द्वारा नियुक्त सदस्थगण/अंशदातागण

में एतदद्वारा परिसमापक के रूप में नियुक्ति स्वीकार करता हूं।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India

नई दिल्ली क्षेत्र, पी-9/90 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

स्थान : गृहगांव

तिथि : 4 अक्टूबर, 2019

ई-नीलामी बिक्री सूचना

इंडिया, एसएएमबी दिल्ली

₹ 0.25 लाख

शैलेन्द्र गुप्ता

परिसमापक

वास्ते आईजीटी सॉल्युशन्स इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेत् सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने और गारंटरों और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभृत लेनदार के पास

गिरवी 🖊 प्रभारित है, का (रचनात्मक क्र.सं. 4, 5, 6, 7) और वास्तविक कब्जा क्र.सं. 1, 2, 3) युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर प्रतिभूत लेनदार की रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नांकित दिनांकों को बेचा जाएगा। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा (EMD) राशि नीचे दी गई है। क्र.सं. 1 से 5 हेतु ई-नीलामी की तिथिः 16.11.2019 और क्र.सं. 6 और 7 हेतु ई-नीलामी की तिथिः 03.12.2019

ई-नीलामी का समय : पूर्वाह. 11.30 बजे से अर्पा. 3.30 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि : (क) ई-नीलामी दिनांक 16.11.2019 हेतु 15.11.2019 (अर्पा. 5.00 बजे तक) (ख) ई-नीलामी दिनांक 03.12.2019 हेतु 02.12.2019 (अर्पा. 5.00 बजे तक)

सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 12.11.2019 को अपीह 02.00 से 04.00 बजे तक के बीच में किया जा सकता है।

	को ज्ञात संपत्ति/यों पर समेकन का विवरण		वा जा सकता ह।		
क्र. सं.	शाखा का नाम, कर्जदार/गारंटर्स का नाम एवं पता	स्थान और सम्पत्ति का विवरण	13 (2) के अनुसार बकाया राशि, जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	खाते का विवरण सम्पर्क विवरण
1	एसएएमबी दिल्ली शाखा	साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति एफ—2, प्लॉट नं. सी—29, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन — 1 I, भोपुरा, गाजियाबाद, यू, पी. — 201015 में स्थित	रु. 20,68,584.00 दिनांक 10.09.2017 से ब्याज और आकरिमक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 17.98 लाख	खाता नं. 15100125001100,
	क) श्रीमती रेखा राई पत्नी श्री मनोज कुमार ठाकुर ख) श्री मनोज कुमार ठाकुर, जे—118/5, द्वितीय तल, सौरव विहार जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली—110044 पता 2: फ्लैट नं. एफ—02, प्लॉट नं. सी—29 डीएलएफ दिलशाद एक्स.—11, मोपुरा गाजियाबाद, यूपी — 201005			₹ 1.80 लाख	IFSC- UTBIOARD778,. खाते का नाम — युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एसएएमबी दिल्ली (Inter Branch Credit Account) श्री प्रमात कुमार सत्पथी 9354483568 (M) और श्री एस. स्वामिनाधन 7738228579(M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
F T				₹ 0.25 लाख	
2		रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 167, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, झिलमिल, ताहीरपुर रिहायशी स्कीम कॉलोनी, फेज-1, विवेक विहार, दिल्ली — 110095 में स्थित, यह सम्पत्ति नवेंदू बब्बर और कशमीरी लाल बब्बर के नाम पर है।	रु. 99,71,589.00 दिनांक 01.07.2017 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 72.90 लाख	खाता नं. 15100125001100, IFSC- UTBI0ARD778
	मैसर्स कल्पवृक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, पता—एनजे—229, सेक्टर—3, बावाना, दिल्ली —110038 पार्टनर्स : 1) श्री नवेंदू बब्बर, 2) श्री कश्मीरी लाल बब्बर,			₹ 7.30 लाख	खाते का नाम — युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिय एसएएमबी दिल्ली (Inter Branch Credit Acco
				₹ 0.50 लाख	श्री प्रमात कुमार सत्पथी 9354483568 (M) और श्री एस. स्वामिनाथन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
3	मैसर्स मुस्कान इंटरनेशनल श्री देविंदर सिंह सोढ़ी (प्रोपराईटर), ए-2/4, फेज- I, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110064	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. 15, तृतीय तल, किंग्स अपार्टमेंट, पंचवटी काम्पलैक्स जोकि मौजा मंडलगन्टी आर. एस. दाग नं. 132, जे. एल. नं. 06 वीआईपी रोड तेघारिया, अर्जनपुर—गोपालपुर नं. ।। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के तहत, ए डी एस आर ओ बिधन नगर (साल्ट लेक सिटी), पी. एस. बगुआती, कोलकाता—700059	रु. 77,70,769/- दिनांक 30.11.2016 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 30.00 लाख	खाता नं. 15100125001100,
				₹ 3.00 लाख	IFSC- UTBI0ARD778, खाते का नाम — युनाइटेड बैंक ऑप
				₹ 0.50 लाख	इंडिया, एसएएमबी दिल्ली (Inter Branch Credit Account) श्री प्रभात कुमार सत्पथी 9354483568 (M) और श्री एस. स्वामिनाधन 7738228579 (M ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
4	एसएएमबी दिल्ली शाखा	भंवर, रामपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर के पास, देवाल चौक हल्दवानी नैनीताल, क्षेत्रफल	रु. 7,75,54,120.50 साथ में ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं अन्य प्रभार	₹ 15.89 करोड़	खाता नं. 15100125001100,
	मैसर्स युवराज ईको दूरिस्म ईको प्रा. लि.			₹ 1.60 करोड़	IFSC- UTBI0ARD778 खाते का नाम —
	पताः मानपुर (वैस्ट) रामपुर रोड, हल्दवानी—263153 जिला नैनीताल उत्तराखण्ड <u>निदेशकः</u> 01) श्री मोहित सिंह नेगी 02) श्रीमती माधुरी नेगी			₹ 1.00 ਜਾਬ	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एसएएमबी दिल्ली (Inter Branch Credit Account) श्री प्रमात कुमार सत्पथी 9354483568 (M) और श्री एस. स्वामिनाधन 7738228579 (M ईमेल - bmard@unitedbank.co.in
5		साम्यिक बंधक एमआईजी फ्लैट नं.		₹ 22.61 लाख	खाता नं. 15100125001100,
	(कर्जदार) पताः एमआईजी फ्लैट नं. एफएफ–03	एफएफ-03 प्रथम तल, (पीछे की तरफ) प्लॉट नं. एम-120, सैक्टर-12, प्रताप	दिनांक 01.08.2018 से ब्याज	₹ 2.26 लाख	IFSC- UTBIOARD778, खाते का नाम — युनाइटेड बैंक ऑफ
					जात का नान - युनाइटक बक्र आव

(Inter Branch Credit Account) प्लॉट नं. एम-120 सैक्टर-12, एवं अन्य प्रभार श्री प्रमात कुमार सत्पथी 9354483568 (M) प्रताप विहार, गाजियाबाद, यू,पी और श्री एस. स्वामिनाधन 7738228579 (M) ईमेल - bmard@unitedbank.co.in 6 मैसर्स महादेव स्टेशनर्स एंड ट्रेडर्स खाता नं. 15100125001100, साम्यिक बंधक भूतल आरजेड ₹. 26.05.604.24 ₹ 20.30 लाख प्रोप. श्री अजय सिन्हा IFSC- UTBIOARD778... 221 / 213 (पुराना नं. 121), खसरा नं. साथ में व्याज ₹ 2.03 लाख खाते का नाम - युनाइटेड बैंक ऑफ RZ-121/213 (पुराना-121) गली नं. 8, और आकस्मिक खर्चे 213, गाँव – नासीरपुर जिसे अब वैस्ट इंडिया, एसएएमबी दिल्ली ब्लॉक, वैस्ट ₹ 1.00 लाख एवं अन्य प्रभार सागरप्र कहते हैं, नई (Inter Branch Credit Account) सागरपुर, दिल्ली–110046 दिल्ली–110046 में रिथत श्री प्रभात कुमार सत्पथी उधारकर्ताः श्री अजय सिन्हा 9354483568 (M) RZ-429/3 स्ट्रीट नं. 11 कैलाश पुरी एक्स. और श्री एस. स्वामिनाथन पालम, दिल्ली-110046 7738228579 (M) गारंटरः श्रीमती तनु सिन्हा RZ-429/3, ईमेल - bmard@unitedbank.co.in स्ट्रीट नंबर 11 कैलाश पुरी एक्स. पालम, दिल्ली -110046 मैसर्स एच.एस. एंड कंपनी खाता नं. 15100125001100, साम्यिक बंधक रिहायशी मकान नं ₹. 87,77,486.00 ₹ 135.00 लाख प्रोप. श्री हरवीर सिंह IFSC- UTBIOARD778,. 1279, सम्पूर्ण भूतल और प्रथम तल, साथ में ब्याज ₹ 13.50 लाख बी-201, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 खाते का नाम - युनाइटेड बैंक ऑफ और आकस्मिक खर्चे सैक्टर-37, अरबन ईस्टेट फरीदाबाद, नई दिल्ली-110020 इंडिया, एसएएमबी दिल्ली ₹ 1.00 लाख एवं अन्य प्रभार हरियाणा — 121003 में रिथत (Inter Branch Credit Account)

और आकस्मिक खर्चे

विहार, गाजियाबाद, यू.पी. -201010 में

उधारकर्ताः श्री हरवीर सिंह पुत्र स्वं. बदले राम बी-201, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 श्री प्रभात कुमार सत्पथी नई दिल्ली-110020 9354483568 (M) गारंटरः श्रीमती सुमन पत्नी श्री हरवीर सिंह, और श्री एस. स्वामिनाधन 7738228579 (M) मकान नं. 1279 ईमेल - bmard@unitedbank.co.in सैक्टर-37, फरीदाबाद-121003

नियम एवं शर्ते :

*सरकारी नियमानुसार जीएसटी लागू ई—नीलामी ऊपर दिये समय पर स्वतः चाल् हो जायेगी।

प्रथम तल, (रियर साइड)

2. सम्पत्ति, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स अंतरेस सिस्टम्स लिमिटेड** के माध्यम से वेबसाईट: www.bankeauctionwizard.com पर

ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी। 3. ई-नीलामी दस्तावेज, जिनमें बिंड फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें दी गई हैं, www.bankeauctionwizard.com में उपलब्ध हैं, से डॉउनलोड कर सकते

है या इच्छक प्रतिभागी ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स अंतरेस सिस्टम्स लिमिटेड मो. 7503347659 (फोन नं. 080-40482000) - हैल्पलाईन ईमेल mail@antaressystems.com & pushpraj@antaressystems.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

4. इच्छुक बोलीदाताओं को एक वैध ई-मेल आईडी होना अनिवार्य है। उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड और प्रशिक्षण केवल उन बोलीदाताओं को मैसर्स अंतरेस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा जो सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्होंने बैंक के साथ अपेक्षित ईएमडी जमा किया है। ईमेल आईडी के द्वारा उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड बोलीदाताओं को सूचित

5. धरोहर राशि (ईएमडी) और केवाईसी दस्तावेजों के प्रमाण के साथ बोली फोंर्म (पैन कार्ड की प्रतिलिप, पहचान का प्रमाण) अर्थात वोटर—आई—कार्ड. / डाइविंग लाइसेंस /पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति) और पते के प्रमाण की प्रति, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है, ई—मेल के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति के समक्ष उल्लिखित अंतिम तिथि पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए। किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त बिड फार्म तथा ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक के पास कोई भी कारण बताए बगैर किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिंड फार्म, बिक्री के नियम व शर्ते बैंक के पोर्टल (www.unitedbankofindia.com) से प्राप्त की जा सकती है।

 ईएमडी रहित बिड फार्म तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। 7. ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ईएमडी जमा करने वाले बोलीदाता यदि किसी भी कारण से नीलामी की तारीख में भाग लेने में विफल रहे, तो जमा की गई ईएमडी स्वचालित रूप

8. किसी कारण से बिक्री के पहले या बाद में बिक्री को रद्द करने की स्थिति में बोली लगाने वाले के पास बैंक के खिलाफ ब्याज सहित किसी भी प्रकृति का कोई दावा नहीं होगा। किसी भी कारण या संपत्ति के कब्जे के संबंध में बिक्री / प्रमाण पत्र / बिक्री प्रमाण पत्र की पृष्टि में देशे की स्थिति में या बोली लगाने वाले के न्यायालय के आदेशों के कारण बैंक के समक्ष ब्याज सहित किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा। यह दोहराया गया है और स्पष्ट किया गया है कि सफल बोलीदाता द्वारा भृगतान की गई राशि किसी भी व्याज को वहन नहीं करेगी और इस तरह किसी भी परिस्थिति में बोलीदाताओं द्वारा ब्याज के भूगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

 सम्पत्ति आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। इच्छक बोलीदाताओं को आरक्षित मृल्य से अधिक मृल्य का उद्धरण करना होगा। सम्पत्ति सर्वोच्च बोलीदाता को बेची जाएगी, उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्यकाल दिवस के बाद नहीं तक जमा करनी होगी और उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को खरीद मुल्य की शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 (पंद्रह) दिन अथवा नोटिस दिये बिना ऐसी आगे बढाई गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी. जिसकी लिखित रूप में अनुमति दी गई है।

10. सफल बोलीदाता को शेष बोली राशि ईएफटी / एनईएफटी / आरटीजीएस / डीडी / पी ओ द्वारा उपरोक्त खाता संख्या में जमा करना होगा। 11. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चुक की स्थिति में जमा राशि और धरोहर राशि और / या प्रारम्भिक जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बेची जाएगी। उच्च बोलीदाता / सफल क्रेता का उपरोक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

12. असफल बोलीदाताओं का ईएमडी उसी दिन वापस कर दिया जाएगा, अर्थात बिक्री के समापन के बाद हर दशा में अधिकतम 7 दिनों के भीतर। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

13. बिक्री मुल्य की राशि के पूर्ण भूगतान के पश्चात सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र (बोली प्रपत्र के अनुसार) जारी किया जायेगा। 14. संपत्ति ''जहां है और जो भी है'' के रूप में बेची जाएगी और इच्छक बोलीदाताओं को किसी भी दावे / अदालत के मामले / मुकदमेबाजी, बैंक के प्रभार के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति पर आरोपों के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए और बोलियां जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। बिक्री के लिए लगाई गई संपत्ति, किसी भी संपत्ति पर या किसी अन्य मामले आदि पर लगाए गए आरोपों के बारे में कोई भी दावा, बोली प्रस्तुत करने के बाद, विचार नहीं किया जाएगा। संभावित बोली

लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अवलोकन करने के लिए नवीनतम प्रोत्साहन प्रमाणपत्र और अन्य राजस्व 🖊 नगरपालिका रिकॉर्डी का सत्यापन करें और संपत्ति पर यदि कोई हो. तो

टाईटल और अभिलेखों पर स्वयं को संतुष्ट करें। लेनदारों / बैंक को ज्ञात नहीं जैसे कि कर बकाया, संपत्ति कर बकाया या अन्य वैधानिक बकाया यदि कोई हो, तो बोली लगाने से पहले संबंधित विभागों से इच्छुक बोलीदाताओं से पूछताछ की जाएगी। 15. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर या सभी ऑफर्स स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए

ई—नीलामी स्थगित / प्रास्थगित / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। 16. क्रेता स्टांप शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और बिक्री प्रमाण पत्र के जारी होने के समय यदि कोई खोत पर आयकर हो.

तो वर्तमान और भविष्य दोनों पर देय होने वाले शुल्कों को या बाद में सम्पत्तियों से संबंधित शुल्क को वहन करना होगा। 17. बेची गई सम्पत्ति / आस्तियों के संबंध में समी सांविधिक / गैर—सांविधिक देयताओं अथवा किसी व्यक्ति को देय सभी प्रमार / कर / हस्तांतरण हेत् देय दरें, सम्पत्ति कर, अन्य कोई देय

एकमात्र रूप से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

18. यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदार / गारंटर के लिए सरफासी एक्ट 2002 के नियम 8(6) और 6(2) के अधीन साविधिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना भी है।

19. बोलीदाता की ओर से किसी चुक / विफलता हेतु न तो युबीआई और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए बोलीदाताओं से आवश्यकता के अनुसार बिजली आपूर्ति बैक-अप जैसी आवश्यक व्यवस्था / वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है।

20. बोलीदाताओं को दी गई उपयोगकर्ता आईडी से की गई सभी बोलियों को केवल उसके द्वारा ही माना जाएगा। 21. बोली लगाने वाले बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ना और समझना होगा और वे इसके द्वारा बाध्य होगें।

22. बिक्री सरफासी अधिनियम, नियम 2002 में समय-समय पर संशोधित शर्तों और उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के अधीन है और किसी भी कोर्ट / न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित होने पर

मामलों / मुकदमों के विचाराधीन है। दिनांक : 31.10.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया

epaper.jansatta.com

(वी. के. मित्तल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्थानः फरीदाबाद तिथि: 30.10.2019 (DIN: 00006398)

दिनांक: 17.05.2019, स्थान : नई दिल्ली

अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सीआईएन : L65910UP1993PLC070612

iजी, कार्या, : शाप नं, 1 और 3, ई—14 / 6, प्रथम

तल. शांता टावर, संजय प्लेस, आगरा-282002

ई-मेल : annainfra@gmail.com,

वेबसाइट : www.annainfrastructures.com,

टेलीफोन : 0562-2526650

सेबी (सुचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रगटीकरण

अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 29

संपठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतत द्वारा

पचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल

ही एक बैठक दिनांक 13 नवम्बर, 2019 (दिन

बुधवार) को दोपहर 1.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय पर कम्पनी के दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को

समाप्त हुई तिमाही हेत् अलेखापरिक्षित वित्तीय

परिणामों को विचार करने, अनुमोदित करने एवं अभिलेखबद्ध किये जाने हेत् अयोजित की गयी है।

उक्त सचना कम्पनी की बेबसाइट

www.annainfrastructures.com पर तथा स्टॉक

एक्सचेन्ज की बेबसाइट www.bseindia.com पर भी

1st Additional Civil Judge (Sr. Div.)

Dehradun अदालती सूचना

आज्ञा से अतिरिक्त सिविल जज प्रथम (सीनियर

डिविजन) देहरादुन न्यायालय सिविल जज प्रथम (सीनियर डिविजन)

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री सचिन शर्मा व एक अन्य

1. श्री सचिन शर्मा पुत्र श्री वी0पी0 शर्मा प्रोपराईटर

बासील इण्डिया कारपोरेशन, 181 खुडबुडा मीहल्ला

2. श्री दीपक अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल निवासी 96

बुंकि वादी ने आपके विरुद्ध ऋण की वसली हेत वाद संस्थित किया है। वाद में दिनांक 5.11.2019 प्रतिवाद

पत्र प्रस्तुत करने एवं तनकींड हेत् नियत है। अतएव आपको एतदद्वारा आहत किया जाता है कि आप या तो

स्वयं या ऐसे अभिवक्ता द्वारा जो सम्यक रूपेण अनुर्दिष्ट

है और वाद सम्बन्धी सब सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो सब

प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है, उपरोक्त वर्णित दिवस

को 10 बजे दिन में न्यायालय में उपसंजात हो और

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन ऐसे

सब दस्तावेजों को पेश करें जिनका कि अपनी प्रतिरक्षा

आपको यह सूचना दी जाती कि पूर्व वर्णित दिवस को

आपकी उपसंजाति में चूक होने पर वाद आपकी

अनुपस्थिति में सुना जायेगा और अवधारित किया

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज

न्याबालय सिविल जज प्रथम (सीनियर डिविजन) देहरादून।

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यातय एक राज्य से दूसरे राज्य

केन्द्रीय सरकार से पहले (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र

कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय, नई दिल्ली

इंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम

2013 और नियम की धारा 13 (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

उपनियम (6)(ए) तक तिथि में संशोधन किया गया

फ्रैंग्रेन्स ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड

(CIN: U45400DL2012PTC232681)

जिसका रजिस्टीकृत कार्यालय : प्रॉपर्टी नं. 44, सूर्य

गिकेतन, दिल्ली-110092 में स्थित है

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए

तारीख सोमवार 14 अक्टूबर, 2019 को आयोजित

असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे

कंपनी के संघम झापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से

पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता ी

प्रादेशिक निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से

14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, ब्रितीय तल, पर्यावरण

भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर

पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त

सेनल्युब इंडस्ट्रीज लि.

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नं. 233-234, सेक्टर-58,

बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, (हरियाणा)

फोन नं.: 08826794470,71,72,73,

वेबसाईट: www.cenlub.in.

ई-मेल: cenlub@cenlub.in

कॉपोरेट पहचान संख्याः L67120HR1992PLC035087

14 नवम्बर, 2019 को आयोजित होने के लिये

निर्धारित बोर्ड के बैठक की सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा)

विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुसार हम,

आपको सूचित करना चाहते हैं कि सेनल्यूब इंडस्ट्रीज

लि. के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 14

नवम्बर, 2019 को 4.00 बजे अप. में पंजीकृत

कार्यालयः प्लॉट नं. 233 एवं 234, सेक्टर-58,

बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 में

आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे

30.9.2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये

कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा

पुनः भारतीय प्रतिभृति और विनियमन बोर्ड (इन्सायडर

ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में

निर्मित इन्सायडरों द्वारा टेडिंग के विनियमन, निगरानी

तथा रिपोर्टिंग के लिये कम्पनी की आंतरिक आचार

संहिता के अनुपालन में कम्पनी की प्रतिभृतियों में

कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों

(कम्पनी के प्रवर्त्तकों तथा निदेशकों सहित) के लिये

लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा

के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की

घोषणा के 48 घंटे बाद अर्थातु 16 नवम्बर, 2019

सेनल्युब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

(दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

अनुमोदन किये जाएंगे।

बोर्ड की ओर से

फ्रैबेन्स ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड

डीआईएन : 01509964

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

स्थान : नई दिल्ली

में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

बतारीख 5 माह 10 सन 2019 को जारी किया गया।

के समर्थन में सहारा लेने का आपका आशय है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा अन्ना इंफ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड

हस्ता./-

वर्ष 2016

कंचन अग्रवाल

(कम्पनी सचिव)

उपलब्ध है।

स्थान : आगरा

वाद संख्या 86

नियर दुर्गा मन्दिर देहरादुन।

/108 मोती बाजार देहरादून।

तिथि : 30.10.2019

ICICI PRUDENTIAL* MUTUAL FUND